

শিশুদেরে জন্ম বাইবেলে
উপহার

দাউদ
এগো চরবাহা
লইকা



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Lazarus
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Ruth Klassen

অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।



ढेर बरस पहिले, इजराईल के राजा शाऊल के दिन में, दाऊद नाम के एगो लईका अपन सात भैयावन के जौरे अपन बाबुजी के भेड़वन के रखवाली करे में मदत करऽ हलथिन।



काहेकी ऊ सबसे छोटा हलथिन, पर दाउद, एगो मजबूत,
बहादुर आउर परमेश्वर के प्यार आउर उनका पर भरोसा
करऽ हलन। ऊ सभे एगो बैतलहम शहर में रह हलन।



एक दिन एगो शेर छोटका मेमना पर खाय लागी घात कर देलकइ। बच्चा दाऊद प्रहार करे बाला पर प्रहार कर देलन।

मेमना के बचाबे के बाद, ऊ डराबना गरजे बाला जानवर के जबड़ा के पकडके ओकरा मार देलन। दाऊद के इ मालूम हलई की परमेश्वर उनकर मदत कैलथिन हे।



शमूएल, परमेश्वर के सेबक, अखनियो राजा शाऊल से दुखी
हलथिन, जे पूरा तरह से परमेश्वर के योजना के नाकाम कैलन
हल। परमेश्वर शमूएल के डाटलथिन, “कखनी तक
तू शाऊल लगी दुखी रहबऽ?” “हम तोरा
यीसै के पास भेजलथिन।...काहे की हम
उनकर बेटा मे से एगो के राजा चुन
लेलियो हैं” ...



... यिसै दाऊद के बाप हलन। जबकि
शमुएल के ई पता हलई कि जदी ऊ
नया राजा के खोजेला जैथिन तऽ,
राजा शाऊल उनखा मार सकऽ
हथीन, तइयो परमेश्वर भविष्यवक्ता
परमेश्वर के बात मानलन।





जखनी शमुएल हूँआ पहुचलन,
यिसै अपन सातों बेटवन के
शमूएल के सामने अबेला
कहलन। शमूएल यिसै से
कहलथिन, यहोवा एखनि में
से केकरो न चुनलथिन हें,
अखनी खाली दाऊद छोटका
बेटा बचल हथिन। ऊ भेड़वन
के साथे बाहर गेलन हे। दाऊद
के अंदर लैलन। आउर यहोवा
कहलन “इही हथीन, उठऽ,
ओकरा अभिषेक करऽ।”



शाऊल के राजमहलबा से प्रभु के आत्मा शाऊल के छोड़ के
चल गेलन आउर अब ऊ एगो खूब परेसान आदमी बन गेलन।
उनखर कर्मचारी सोचलन हो सकऽ हें की बढ़िया संगीत

शाऊल के मनमा ठीक कर सकऽ
हई। ओखनी में एगो, आदमी के


जनऽ हलन जेकरा
खूब बढ़िया विणा
बाजबे आवऽ हलई।
तोर का लगऽ हो
ऊ आदमी कोन
हलन, अंदाजा
लगाबऽ? हाँ, ऊ
दाऊद ही हलन।



दाऊद के गाना शाउल के शांत
कैलक आउर सही सोचे लागी
उनखा मददत कैलन। शाउल यिसै
से दाऊद के राजा के सेवा में रहे
लागी मागलन। जखनी कहियो भी
शाउल के उदास या डर के दौरा
पड़ें, दाऊद उनखा लागी विणा
बजैलन शाउल के बड़ा अराम
मिललई।



जखनी दाऊद अपन घरे चल गेलन तखनी, शाउल
पलिस्तिनियन के साथे एगो बड़का लडाई लड़लन। दाऊद
के भाई शाउल के सैनिकवन के दने से लड़लन। यीसै
दाऊद के उनखर भैयवन भीर भेजलन जेकरा से उनखा
ला ऊ खाना ले जाय। आउर पता लगावे कि ऊ जंग के
मैदान में कैसन हथीन।



एगो बिसाल पलिसती...बिसाल, गोलियात, सभे इस्राएली
सैनिकवन के डरा देलन हल।



“अपना ला एगो आदमी चुनलन, आउर ओकरा हमरा भीर
आबे दऽ!” गोलियात चिल्लयलक। जदी उ हमरा साथे लडतइ
आउर हमरा मार देतई, तऽ हमनी सब हमेसा
लागी तोहनी के गुलाम हो जैबो, बाकी जदी हम
ओकरा मार देबय “तऽ तोहनी सभे हमर नौकर

आउर हमनी के
हमेसा सेवा


करिहऽ।”



इस्राएल के सभे अदमियन जखनी ओकरा
देखलन, ऊ भयंकर आदमी के देख के ओकरा
भीर से भाग गेलन आउर बड़ी डर गेलन।



तखनी दाऊद शाऊल से कहलन, “ओकरा से एतना डरे के जरूरत न हई, अपन ई सेबक के जाय दऽ, हम ई पलिस्तिनी से लड़बड़।” शाऊल चाहऽ हलन की दाऊद कवच पहनके आउर एगो तलबार के साथे जाय। एकर बदले, दाऊद अपन गौफन लेलन आउर नालवा में से पांचगो चिकन पथल उठा लेलन।



जखनी ऊ बालक दाऊद के गोलियात बिना कबच के देखलन,
तखनी हसलन। ऊ गरज के बोललन, हम असमान के पछी
आउर मैदान के जानबर
के तोर शरीर खाय ला
देबो। “दाऊद जबाब
देलन, हम तोरा भीर
प्रभु के नाम से आबऽ
हियो।” “आज के दिन
यहोवा तोरा हमर हाथ
में कर देथन, कहे की ई
लड़ाई यहोवा के हैं!”






तखनी दाऊद सीधे
गोलियात दने
भागलन। दौड़ते, ऊ
अपन गोफन में से
एगो पत्थर निकाल
के -गोलियात के
मथाबा पर
मारलन। गोलियात
गिर गेलई!।



दाऊद जल्दी से गोलियात के बिसाल तलबार खीच के ओकर सिर काट करके अलग कर देलन। जखनी पलिस्ती गोलियात के मरल शरीर देखलन, ऊ अपन जिनगी बचावे ला भाग गेल।




राजा शाऊल के ई मालूम नऽ हलई की ई उही दाउद
हैं जे उनखा ला बिणा बजाब हलई। ऊ दाउद के अपन

सेना के मुखिया बना देलन, आउर
जखनी अदमियन दाऊद के जीत के
सम्मानित कैलन, तखनी ऊ जलन से
भर गेलन। शाऊल सोचलन, “अब
आउर उनका का चाही, राज”? ऊ
दिन से साऊल दाऊद
पर ध्यान रखे
लगलन।



फिनो, राजा शाऊल के मन परेंशान होलई। तखनी दाऊद संगीत बजा के ओकरा सांत कैलन आउर दर्द के कम करे के कोसिस कैलथिन। तीन बार शाऊल दाऊद के ऊपर भाला फेकलन। तैईयो हर बेरा दाऊद

बच गेलन। शाऊल, दाऊद से डरऽ हलथिन,
ऊ जानऽ हलन के यहोवा दाऊद के
साथ हथीन आउर शाऊल
के छोड़ देलन हल।



जबकि शाऊल के बेटा योनातन, दाऊद के एगो भाई के तरह मान हलन। “हमर बाप शाऊल तोरा मारे ला चाहऽ हथिन, ऊ दाऊद के चितौनी देलन।” एही से दाऊद भाग गेलन। उनखर औरत उनखर बिछौना में एगो पुतला रख देलन, आउर आधी रात में दाऊद खिड़की से उतर के भाग निकललन। जखनी शाऊल के सेबक भोरे अईलन तऽ देखलन,

दाऊद भाग
गेलन हल।



दाऊद को शाऊल से बहुत दूर भागे पड़ल। भागे से पहिले ऊ
योनातन से एगो बादा करलन। ओखनी हमेशा एगो दूसरा के
मदत करे के बादा कैलन।



दुखी मनमा से, दुनो दोस्तबन एक दुसरे के जाय ला
अलबिदा कहलन। दाऊद एगो अईसन जगहा के खोज में
हलन, जहाँ ऊ शाऊल के सैनिकवन के खोजे के डर के बिना
रह सकऽ हलन।



दाउद एगो चरबाहा लईका

ईश्वररे बाक्य, बाईबले थके एकटी गल्प,

पाওয়া याय

1 शमूएल 16-20

“तौमार शब्दरे प्रबशेद्वार आलौ दये।”

गीतसंहति 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তরৈকিরছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়ে স্বর্গে চল গেলেন! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বিাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্షমা চান, তিনি তা
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যবে বাস করবেন, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বশ্বিাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিাস করি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্షমা করুন, যাতো আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

